

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन को अर्बन डिज़ाइन प्लानिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (26 अप्रैल, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, द कनेडियन सोसायटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स (सी.एस.एल.ए.) (The Canadian Society of Landscape Architects) (CSLA) से प्लानिंग एंड एनालाइसिस (Planning and Analysis) श्रेणी में, [“अपटाउन ब्रैम्पटन ट्रांज़िट-अनुकूलित कम्युनिटीज टूलकिट”](#) (“Uptown Brampton Transit-Oriented Communities Toolkit”) प्रस्तुत करने के लिए, [अवॉर्ड ऑफ एक्सिलेंस \(Award of Excellence\)](#) जीता है।

ब्रैम्पटन की अर्बन डिज़ाइन (Urban Design) टीम ने, प्रोजेक्ट विकसित करने में टोरोंटो स्कूल ऑफ सिटीज (Toronto School of Cities) और अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट टोरोंटो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (Urban Land Institute Toronto District Council) के साथ साझेदारी की है। “अपटाउन ब्रैम्पटन ट्रांज़िट-अनुकूलित कम्युनिटीज टूलकिट” एक सहयोगात्मक सिटी-बिल्डिंग मॉडल की पड़ताल करती है, जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गैर-लाभ और लोकल कम्युनिटीज के बीच बेहतर अलाइनमेंट में मदद करता है।

अपटाउन मॉडल, “26-घंटा सिटी” का मूल्य प्रकट करता है, जहां 20-मिनट की दूरी वाली कम्युनिटीज, रोज़ाना जीवन गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार करके, “अतिरिक्त घंटे” प्रदान करते हुए – आने-जाने की और कार-स्वामित्व की उच्च लागत को खत्म करती हैं। यह मॉडल, उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियां और रोजगार पैदा करने में सहयोग करता है और सिटी को कार्बन-निष्पक्ष भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है।

इस माह, पहले हुए अवॉर्ड समारोह के दौरान, सी.एस.एल.ए. (CSLA) से चौदह प्रोजेक्टों को राष्ट्रीय अवॉर्ड मिला था। ये अवॉर्ड-विजेता प्रोजेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स के कामों की रेंज दिखाते हैं और यह दर्शाते हैं कि वे उन स्थानों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर रहे हैं, जहां हम रहते, काम करते और खेलते हैं।

विजेताओं का चयन, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स की राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। कुल 72 प्रस्तुतियां मिली थीं। जजों द्वारा इस्तेमाल किए गए मापदंड में शामिल था:

- लैंडस्केप आर्किटेक्चर के क्राफ्ट की गहरी समझ और रचना तथा विवरण पर ध्यान का प्रदर्शन;
- लीडरशिप, प्रोजेक्ट प्रबंधन, काम के विस्तार, नए निर्देशों या नई टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता का प्रदर्शन;
- धारणा, प्रक्रिया, सामग्रियों या कार्यान्वयन में नवीनता;
- संबंधित पेशों, क्लाइंट्स और आम जनता के बीच अनुशासन का प्रचार; और,
- आदर्श पर्यावरणीय और/अथवा सामाजिक जागरूकता का प्रदर्शन।

हवाले

“ब्रैम्पटन, आधुनिक विचार रखने वाला अवसरों का शहर है। हम जोशीली, स्वस्थ और संपूर्ण कम्युनिटीज के लिए समार्ट योजना बनाने का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारी अर्बन डिज़ाइन टीम की सराहना करता हूँ कि उन्होंने 20-मिनट पैदल दूरी वाली कम्युनिटीज के लिए योजनाएं विकसित करना और इस बारे में मार्ग प्रशस्त करना जारी रखा है कि हम अपटाउन ब्रैम्पटन की क्षमता का लाभ कैसे ले सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हुरोन्टैरियो एल.आर.टी. के स्टील्स स्टॉप को, मेट्रोलेक्स 2041 रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान और ब्रैम्पटन के ऑफिशियल प्लान में, गेटवे मोबिलिटी हब के तौर पर नोट किया गया है। यह पदवी, उच्च गुणवत्ता के पैदल चलने वाले और साइकलिंग संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित, यात्रा के कई मोड्स के लिए उच्च आबादी में वृद्धि और डिज़ाइन चिंतनों की हिमायत करती है। यदि ग्लोबल महामारी ने हमें कुछ सिखाया है, तो वह यह है कि हमारे लिए बदलते व्यवहारों को अपनाने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। अपटाउन को ट्रांज़िट-अनुकूलित कम्युनिटी में बदलना, हमारे निवासियों, कारोबारियों और लोकल स्टेकहोल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वाईस 3 और 4; चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम ऐसी जोशीली, स्वस्थ और संपूर्ण कम्युनिटीज की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे निवासियों के विचारों और जरूरतों पर ध्यान देती हों। इस गौरवशाली अवॉर्ड के लिए हमारी अर्बन डिज़ाइन टीम को बधाई हो। अपटाउन में शॉपर्स वर्ल्ड साइट, ब्रैम्पटन के इस क्षेत्र को ट्रांज़िट-अनुकूलित कम्युनिटी में विकसित करने के लिए निवेश में तेज़ी लाने का बेजोड़ अवसर प्रदान करती है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca